

# आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा

## कक्षा-6

विषय - हिन्दी

अभ्यास पत्र

खंड-1

प्रश्न-1 निम्न गद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झण्डा है। यह तिरंगा झण्डा भारतवर्ष के नागरिकों को अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। इस तिरंगे झंडे में तीन रंग हैं तथा मध्य में अशोक चक्र है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है, मध्य में सफ़ेद रंग सुख-शांति का तथा नीचे हरा रंग हरियाली तथा खुशहाली का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो अशोक चक्र है वह हमें निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई इसी ध्वज के नीचे लड़ी थी तथा ध्वज की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बाज़ी लगा दी थी। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसकी आन, बान और शान की रक्षा करें।

प्रश्न (क) स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है?

प्रश्न (ख) सुख-शांति का प्रतीक कौनसा रंग है?

प्रश्न (ग) 'कायरता' का विलोम शब्द क्या है?

प्रश्न (घ) 'आज़ादी' का पर्यायवाची शब्द क्या है?

प्रश्न-2 निम्न पद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

“वह चिड़िया जो चोंच मारकर  
दूध-भरे जुण्डी के दाने रुचि से रस से खा लेती है  
वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखोंवाली मैं हूँ  
मुझे अन्न से बहुत प्यार है।  
चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है  
वह छोटी गरबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ  
मुझे नदी से बहुत प्यार है।”

प्रश्न (क) चिड़िया किसके लिए गाती है?

(अ) बूढ़े वन बाबा के लिए

(ब) अपने साथियों के लिए

(स) घने जंगलों के लिए

(द) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (ख) चिड़िया का स्वभाव कैसा है?

(अ) गरबीली

(ब) शांत

(स) डरावना

(द) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (ग) चिड़िया को किससे प्यार नहीं है?

(अ) विजन से

(ब) अन्न से

(स) समुद्र से

(द) नदी से

प्रश्न (घ) चिड़िया किसका दिल टटोल रही है?

(अ) समुद्र का

(ब) वन बाबा का

(स) जंगलों का

(द) नदी का

खंड-2

प्रश्न-3 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में दो:-

प्रश्न (क) बच्चे उड़ते हवाई जहाज की तुलना किससे करते थे?

प्रश्न (ख) लेखिका ने शनिवारी दवा किसे कहा है?

प्रश्न-4 निम्न प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में दो:-

प्रश्न (क) अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने क्या उपाय निकाला?

प्रश्न (ख) “नादान दोस्त” पाठ में दोनों बच्चों को दूध-जलेबी की भी सुध क्यों नहीं रहती थी?

प्रश्न-5 निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में दीजिए (कोई दो) :-

प्रश्न (क) ”चाँद ने लड़की को समझने में क्या भूल की है? और वास्तविकता क्या है?

प्रश्न (ख) लड़की ने ऐसा क्यों कहा की चाँद को बीमारी है?

प्रश्न (ग) ‘चाँद से थोड़ी सी गप्पें’ पाठ में चाँद की कौनसी विशेषताएँ बताई गई हैं?

### खंड-3

प्रश्न-6 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में दो:-

प्रश्न (क) अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी?

प्रश्न (ख) राजा दशरथ के कितने पुत्र थे?

प्रश्न (ग) शिव धनुष की क्या विशेषता थी?

प्रश्न (घ) राजा दशरथ की क्या इच्छा थी?

### खंड-4

प्रश्न-7 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो:-

(क) भाषा किसे कहते हैं?

(ख) बोली किसे कहते हैं?

(ग) वर्ण किसे कहते हैं?

(घ) स्वरों के कितने भेद होते हैं?

प्रश्न-8 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो:-

(क) अनुज (ख) विजय

प्रश्न-9 निम्न शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखो:-

(क) फूल (ख) बादल

प्रश्न-10 बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए चार दिन के अवकाश के लिए अपनी प्रधानाचार्य को

प्रार्थना-पत्र लिखो।

प्रश्न-11 न्यूनतम 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखो : “सच्चा मित्र”